



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18, 2003 (पौष 28, 1924)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18, 2003 (PAUSA 28, 1924)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या का आंकड़ा है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर विधियों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 65

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारों अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 43

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारों अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 53

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर श्रम समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां शामिल हैं) *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत के सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड—(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधोनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 77

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 185

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधिन अध्या द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विधियों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 2513

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और संघ-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 9

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्जाने वाला सम्पूर्ण *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	65	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	43	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	77
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	53	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..	185
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	2513
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..	9
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).			

भाग 1—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं० 07011/1/2002-साल्ट—भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (इससे आगे इसे 'बोर्ड' कहा गया है) की संरचना निम्नानुसार होगी :—

अध्यक्ष

1. वाणिज्य और उद्योग मंत्री

सदस्य

केन्द्रीय सरकार के विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि

2. संयुक्त सचिव, प्रभारी नमक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।

3. संयुक्त सचिव, प्रभारी राष्ट्रीय आई० डी० डी० कंट्रोल प्रांशम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

4. केन्द्रीय श्रम आयुक्त, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

5. कार्यकारी निदेशक (यातायात तथा परिवहन), रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

6. निदेशक, केन्द्रीय नमक तथा सधुद्री रसायन अनुसंधान, संस्थान, भावनगर, गुजरात।

नमक उत्पादन करने वाले राज्यों की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

7. उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार, गांधी नगर, गुजरात।

8. सचिव, उद्योग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हदराबाद।

9. सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई।

10. सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

11. सचिव, उद्योग विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।

12. सचिव, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता।

नमक उत्पादन करने वाले राज्यों से भिन्न राज्य सरकारों, विभागों के प्रतिनिधि

13. सचिव, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, असम सरकार, दिसपुर।

14. सचिव, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

15. सचिव, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलूर।

नमक विनिर्माताओं के प्रतिनिधि

गुजरात

16. अध्यक्ष, भारतीय नमक विनिर्माता संघ (आई एस एम ए), मुम्बई।

17. अध्यक्ष, खाराघोदा आयोडीनीकृत नमक विनिर्माता संघ, खाराघोदा।

18. अध्यक्ष, गांधीग्राम चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, गांधीग्राम।

19. अध्यक्ष, गुजरात साल्ट फेडरेशन, भावनगर।

20. अध्यक्ष, कच्छ सौराष्ट्र नमक निर्माता संघ, जामनगर।

21. अध्यक्ष, कच्छ लघु उद्योग नमक निर्माता संघ, गांधीग्राम (कच्छ)—370201।

22. श्री डी० एस० जाला, चेयरमैन, देव साल्ट प्रा० लि०, जामनगर।

तमिलनाडु

23. श्री माइकल भोथा, 13 ए/1, मीनाक्षीपुरम वैस्ट, पिल्लयार कॉयल स्ट्रीट, तुतीकोरिन-628002।

24. श्री ए० रवि वेदारण्यम (गुरुकुलम)।

25. श्री के० मरियप्पन, 2, कैथेड्रल रोड, चेन्नई-600086।

अ प्रदेश

26. श्री मल्लासबाशिव राव, गांधी मार्केट, अनकापल्ली-531001, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश।

27. श्री विश्वनंद बाबू, चिदम्बरेश्वर स्वामी मंदिर, विन्तमंजम-523135, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश।

उड़ीसा

28. उडासा नमक विनिर्माता संघ, अजय विनय भवन, डेड एस्टेट, कटक-753010।

पश्चिम बंगाल

29. कोल्तेय नमक विनिर्माता संघ, एम० आई० जी० 2 आर. 2/16, फेस-4, गोलफ ग्रीन, कोलकाता-95।

राजस्थान

30. श्री एस० पी० बाहुरा, अध्यक्ष, नमक विनिर्माता संघ, कलौदी।

महाराष्ट्र

31. श्री विवेक महाल, मीठावर कांगड सहकारी संस्था लि०, बसाव, धाणे।

आयोडीकृत नमक/शुद्ध आयोडीकृत नमक विनिर्माताओं के प्रतिनिधि

32. श्री कृष्ण नुरारी लाल जी, अन्नवाल प्रेम नमक उद्योग भारत दीप, कलब रोड, धरंगावरा-363310, जिला सुन्दरनगर, गुजरात।

33. श्री बाबू लाल संघवी, गांधीग्राम-370201, फैंड्स साल्ट वर्क्स एंड एलाइड इंड०

नमक विनिर्माणकारी सहकारी समितियों की जानकारी तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

34. श्री हुस्मा एंड विचमपल्ली साल्ट प्रोडक्शन एंड सेल कोऑपरेटिव सोसायटी लि०, पी० ओ० एंड डिस्ट्रिक्ट नमक, उड़ीसा-761026।

कलौर अल्कली इंडस्ट्री का प्रतिनिधि

35. अध्यक्ष, भारती अल्कली विनिर्माता संघ, पंकज चैम्बर्स, तीसरी मंजिल, प्रोत विहार, वाणिज्यिक परिसर, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092।

पूर्वांतर क्षेत्र के आयोडीकृत नमक विनिर्माता/नामित व्यक्ति

36. श्री राजा लोहिया, मैसर्स झाबरमल विनोद कुमार कॉल रोड, डिब्रूगढ़, असम।

सार्वजनिक कार्यों की जानकारी तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति

37. श्रीमती सविता शारदा, सांसद (राज्यसभा)

38. प्रो० अल्का बलराम क्षत्रिय, सांसद (राज्यसभा)

39. श्री पी० एस० गांधवी, सांसद (लोकसभा)

40. श्री भीम दहल, सांसद (लोकसभा)

41. श्री दिनशा पटेल, सांसद (लोकसभा)

अभिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

42. सुथी बी० गीता जीवन, 55/249, सी-1, गीता नगर, मुथैयापुरम पी० ओ०, थुधुकुडी, तमिलनाडु।

43. श्री एस० के० वेदार्थनम, थेथाकुडी साउथ पोस्ट, थेथाकुडी, वेदारनयम, तमिलनाडु।

44. श्री राम चन्द्र पांडा, क्वार्टर नं० VII: आर डी/एस-2/1, यूनिट-2, भुवनेश्वर।

सदस्य-सचिव

45. नमक आयुक्त, जयपुर

टिप्पण : जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालयों तथा वाणिज्य विभाग तथा राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों को आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है।

संसद के वे सभी सदस्य जो क्षेत्रीय नमक सलाहकार बोर्डों के सदस्य हैं, बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकते हैं।

2. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कार्यकलापों में नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 3 के तहत उद्गृहीत नमक उपकर की आय के प्रशासन पर भारत सरकार को सलाह देना और नमक उद्योग के विकास के लिए सामान्यतया प्रेरणादायक उपायों को सिफारिशें करना शामिल है, जैसे कि :

(i) अनुसंधान केंद्रों, माडल फार्मी और नमक कारखानों की स्थापना एवं रखरखाव,

(ii) नमक को प्रेषितों का निर्माण और इतनी गुणवत्ता में सुधार करना,

(iii) निर्यात में वृद्धि,

(iv) नमक विनिर्माताओं के बीच सहकारी प्रथा को बढ़ाना तथा प्रोत्साहित करना,

(v) नमक उद्योग के विकास से संबंधित कोई अन्य मामला,

(vi) नमक उद्योग में नियोजित अभिकों के कल्याण को बढ़ावा देना।

3. (क) बोर्ड का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(ख) यदि किसी गैर-सरकारी सदस्य का पद खाली होता है तो केंद्र सरकार बोर्ड के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए उस रिक्ति को भरने के लिए किसी नये व्यक्ति को नामित करेगी।

4. (क) यदि कोई नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं होता है तो वह इसको लिखित सूचना बोर्ड के अध्यक्ष को देगा।

(ख) बोर्ड की बैठक के लिए कोरम संख्या तीन होगी।

(ग) बोर्ड की बैठक में अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी उपसमिति की बैठक में भाग लेने वाला हर एक गैर-सरकारी सदस्य नियमाधीन अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर

यथा अनुमोदित यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का पात्र होगा।

(घ) नमक आयुक्त, जयपुर गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा तथा दैनिक भत्तों के बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए नियंत्रण अधिकारी होगा।

(ङ) कोई भी गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र भेजकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(च) यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य भारत से बाहर जाता है तो वह बोर्ड के अध्यक्ष को भारत से जाने से पहले अपने प्रस्थान करने की तारीख तथा भारत वापस आने की संभावित तारीख की सूचना और यदि वह छः महीने से अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर रहना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। यदि कोई ऐसा सदस्य उपर्युक्त अनुदेश का पालन किये बिना ही भारत से बाहर चला जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने भारत से बाहर जाने की तारीख से अपना त्यागपत्र दे दिया है।

(छ) बोर्ड का अध्यक्ष किसी सदस्य को निम्नलिखित अवस्थाओं में उसे उसके पद से हटा सकता है:—

(i) यदि वह दिवालिया हो गया हो, अथवा

(ii) यदि उसे किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया हो जिससे वह केंद्र सरकार की राय में नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, अथवा

(iii) यदि वह बोर्ड के अध्यक्ष से छुट्टी लिए बिना ही बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, अथवा

(iv) यदि केंद्र सरकार की राय में उसे बोर्ड का सदस्य बने रहने के लिए उचित नहीं समझा जाता है।

(ज) बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से बोर्ड का सचिव क्षेत्रीय नमक सलाहकार बोर्ड के किसी एक अथवा अधिक गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड की किसी बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकता है और ऐसे सदस्य अथवा व्यक्ति ऊपर खंड (ग) में निर्दिष्ट यात्रा भत्ता आदि पाने के हकदार होंगे।

(झ) बोर्ड की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान समय पर की जाएगी।

(ञ) भारत में मौजूद प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक साधारण बैठक के लिए निर्धारित समय व स्थान की सूचना उस बैठक के आयोजन से कम से कम 15 दिन पहले देनी होगी और प्रत्येक सदस्य को उस बैठक में निपटायी जाने वाली कार्यसूची भेजनी होगी।

(ट) वरतों, यदि अध्यक्ष द्वारा को आपातकालीन बैठक आयोजित की जाती है तो ऐसी स्थिति में नोटिस भेजना आवश्यक नहीं होगा।

(ठ) किसी भी ऐसे मद पर जो सूची में शामिल नहीं है, बोर्ड के अध्यक्ष को पूर्व अनुमति के बिना उस पर बैठक में विचार नहीं किया जायेगा।

(ड) बोर्ड की जिस बैठक में अध्यक्ष उपस्थित होंगे उसकी अध्यक्षता वह स्वयं करेंगे। किंतु, यदि अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो समीक्षक किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे और इस प्रकार से चुना गया वह सदस्य उस बैठक में अध्यक्ष की प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ढ) बोर्ड की बैठक में प्रत्येक प्रश्न पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा उस प्रश्न पर मतदान द्वारा निर्णय लिया जायेगा। मतदान के बराबर-बराबर रहने के मामले में अध्यक्ष एक अतिरिक्त मत देगा।

(ण) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ भारत में मौजूद सभी सदस्यों को परिचालित की जायेंगी तथा तत्पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किया जायेगा, जिसे स्थाई रिकार्ड के लिये रखा जायेगा।

प्रत्येक बैठक कार्यवाहियों के रिकार्ड पर बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

(त) किसी क्षेत्र में व्यवस्था के प्रस्तावों की उपकर की उगाही से पूरा किये जाने पर सर्वप्रथम क्षेत्रीय बोर्ड सिद्धान्त संहिता के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत विचार करेगा। इस प्रयोजनार्थ, प्रस्तावों तथा इसके अनुमानित लागत के व्यौरों के प्राथमिक आकलन सहित अन्य आवश्यक आंकड़े क्षेत्रीय अधिकांशों द्वारा तैयार किये जायेंगे। यदि परियोजना की लागत वित्तीय सीमाओं से अधिक हो जाती है तो क्षेत्रीय बोर्ड की सिफारिशों सहित प्रस्तावों पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

(थ) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकारोक्ति के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके पश्चात् विस्तृत आकलन तैयार किया जायेगा आकलनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(द) केवल इस आधार पर कि बोर्ड में कोई रिक्ति है अथवा इसके संविधान में कोई त्रुटि है, बोर्ड के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय को संप्रेषित किया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

एस० जगदीश
संयुक्त सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

(विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

संकल्प

सं० 1(1)/2002-लघु उद्योग बोर्ड व नीति—भारत सरकार ने लघु उद्योग बोर्ड का विभिन्न प्रकार गठन किया है:—

- अध्यक्ष
- 1 लघु उद्योग राज्य मंत्री,
भारत सरकार,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

केन्द्र सरकार के विभाग
 - 2 सचिव
लघु उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
 - 3 सचिव
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
 - 4 सचिव
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011
 - 5 सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
 - 6 सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011
 - 7 सचिव
श्रम मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
 - 8 सचिव
वायुमंडल विभाग
विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय
सी०जी०ओ० कामप्लेक्स
नई दिल्ली-110003
 - 9 सचिव
सूचना विज्ञान विभाग
संचार एवं सूचना विज्ञान मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
सी०जी०ओ० कामप्लेक्स
नई दिल्ली-110003
 - 10 सचिव
वस्त्र मंत्रालय
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011
 - 11 सचिव
योजना आयोग
योजना भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110011
 - 12 सचिव
वैज्ञानिक विभाग
वित्त मंत्रालय
जवाहर विरिडिंग, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

वित्तीय संस्थान
 - 13 डिप्टी गवर्नर
भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन
18वां तल शहीद भगत सिंह रोड फोर्ट
मुम्बई-400029
 - 14 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी),
10/10, मदन मोहन मालविया मार्ग,
लखनऊ-208001 (उत्तर प्रदेश)
 - 15 अध्यक्ष,
भारतीय स्टेट बैंक (एस०बी०आई०),
केन्द्रीय कार्यालय, नया प्रशासनिक भवन,
मैडम कैमे रोड मुम्बई-400029
 - 16 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
नार्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इन्स्टीट्यूशन,
छटा तल, आईडीबीआई बिल्डिंग,
जी०एस० रोड, गुवाहाटी

सरकारी संस्थान
 - 17 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन०एस०आई०सी०),
एनएसआईसी भवन, ओबला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-110020

राज्य/संघ सरकार के उपराज्यपाल प्रशासक मंत्री
 - 18 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
सचिवालय,
हैदराबाद-500022 (आन्ध्र प्रदेश)
 - 19 उपराज्यपाल,
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन,
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
अण्डमान सचिवालय,
पोर्ट ब्लेयर-744101
 - 20 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
असम सरकार, जनता भवन,
सचिवालय डिब्रुगढ़,
गुवाहाटी-781006 (असम)

- 21 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
अरुणाचल प्रदेश सरकार,
ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) ।
- 22 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
बिहार सरकार,
विकास भवन, नया सचिवालय,
पटना-800015 (बिहार) ।
- 23 प्रशासक,
चंडीगढ़ प्रशासन,
पंजाब राज भवन,
चंडीगढ़ ।
- 24 प्रशासक,
दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन
सचिवालय दादरा एवं नागर हवेली
सिलवासा-396230 ।
- 25 प्रशासक
दमन एवं दीयू, सचिवालय,
दमन-396220 ।
- 26 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट,
दिल्ली ।
- 27 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
गोवा सरकार, सचिवालय
पणजी-403001 (गोवा) ।
- 28 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
गुजरात सरकार,
सचिवालय, ब्लॉक नं० 1, छटा तल,
गांधीनगर-382010 (गुजरात) ।
- 29 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चंडीगढ़-160011 (हरियाणा) ।
- 30 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
हिमाचल प्रदेश सचिवालय,
शिमला-171002 (हिमाचल प्रदेश)
- 31 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
जम्मू एवं काश्मीर सरकार,
सिविल सचिवालय,
श्रीनगर-1900012 (जम्मू एवं काश्मीर)
- 32 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
कर्नाटक सरकार,
कमरा नं० 37, दूसरा तल, विधानगृहा,
बंगलूर-560001 (कर्नाटक)
- 33 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
केरल सरकार,
सरकार सचिवालय,
थिरुवनन्थपुरम-695001 (केरल)
- 34 प्रशासक,
लक्षद्वीप प्रशासन,
लक्षद्वीप उद्योगाधिकारी श्रेष्ठ,
गवर्नमेंट हाऊस,
पी० ओ० कारवार (लक्षद्वीप)
- 35 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
मध्य प्रदेश सरकार,
उद्योग मंत्रालय, सचिवालय,
कमरा नं० 545, पाँचवा तल,
बलराम भवन,
भोपाल-462004 (मध्य प्रदेश)
- 36 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
महाराष्ट्र सरकार,
कमरा नं० 108, पहला तल, मंत्रालय,
मुंबई-400032 (महाराष्ट्र)
- 37 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
मणिपुर सरकार,
मिनिस्टर ऑफ़ नार्थ,
इम्फाल-795001 (मणिपुर)
- 38 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
मिजोरम सरकार, सिविल सचिवालय,
एजवाल-796001 (मिजोरम)
- 39 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
मेघालय सरकार, मेघालय सचिवालय, मिस्ट्री बिल्डिंग,
शिलांग-739001 (मेघालय)
- 40 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
नागालैंड सरकार, पी० ओ० नागालैंड,
कोहिमा-797001 (नागालैंड)
- 41 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
उड़ीसा सरकार, राज्य सचिवालय,
भुवनेश्वर-751001 (उड़ीसा)
- 42 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
पंजाब सरकार, पंजाब सिविल सचिवालय,
चंडीगढ़-160001 (पंजाब)
- 43 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
लेजि स्लेटिव असेम्बली,
पाण्डिचेरी सरकार, सचिवालय,
पाण्डिचेरी-605001 (पाण्डिचेरी)

- 44 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
सारखण्ड सरकार, नेपाल हाऊस, डोरन्डा,
रांची-302005 (सारखण्ड)
- 45 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
राजस्थान सरकार, सचिवालय,
जयपुर-302005 (राजस्थान)
- 46 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
सिक्किम सरकार,
तासांगिग सचिवालय, गंगटोक,
सिक्किम-1737101 (सिक्किम)
- 47 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
तमिलनाडू सरकार,
फोर्ट स्ट्रीट जार्ज,
चेन्नई-600009 (तमिलनाडू)
- 48 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
त्रिपुरा सरकार,
सिविल सचिवालय, वेस्ट त्रिपुरा
अमरतला-799001 (त्रिपुरा)
- 49 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
मिनिस्टर एस एस आई सचिवालय,
लखनऊ-208001 (उत्तर प्रदेश)
- 50 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
उत्तरांचल सरकार,
विधान भवन,
देहरादून-248001 (उत्तरांचल)
- 51 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
छत्तीसगढ़ सरकार,
डी० के० भवन, मंत्रालय,
रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)
- 52 मंत्री (प्रभारी) लघु उद्योग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
राइटर्स बिल्डिंग, दूसरा तल, कमरा नं० 23,
कोलकाता-700001 (पश्चिम बंगाल)
- स्थायी समिति अध्यक्ष
- 53 सांसद एवं अध्यक्ष
उद्योग संबंधित संसदीय स्थायी समिति,
नई दिल्ली
मुख्य एसोसिएशन
- 54 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल
इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया,
23/बी/2, गुरु गोविंद सिंह मार्ग,
न्यू रोहाक रोड, नन्दोक लिबर्टी सिनेमा,
नई दिल्ली-110005
- 55 अध्यक्ष,
लघु उद्योग भारती,
1ई/11, स्वामी राम तीर्थ नगर,
खण्डेवाला एक्सप्रेसवे,
नई दिल्ली-110055.
- 56 अध्यक्ष,
इण्डियन काउन्सिल आफ स्माल इण्डस्ट्रीज,
1/ए, एस०एन० बेनर्जी रोड,
कोलकाता-700013, (पश्चिम बंगाल)
- 57 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ स्माल एंड मिडियम इण्डस्ट्रीज,
23, आर० एन० मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001. (पश्चिम बंगाल)
- 58 अध्यक्ष,
आल इण्डिया एसोसिएशन आफ इण्डस्ट्रीज,
106, उत्तम हाऊस, 69 पी, डमेलो रोड,
कारनैक बन्दर,
मुम्बई-400009 (महाराष्ट्र)
- 59 अध्यक्ष,
स्माल इण्डस्ट्री काउन्सिल,
का फेडरेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्री,
23, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- 60 अध्यक्ष,
स्माल इण्डस्ट्री कमेटी,
सी/ओ सी ना सुत्राकरण, उपसचिव,
फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ
कामर्स एंड इण्डस्ट्री, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-110001
- 61 अध्यक्ष,
एकपार्ट कमेटी आन एसएमईज
एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एंड
इण्डस्ट्री आफ इण्डिया (एजीचैम)
147-बी, गौतम नगर, गुलशोहर पार्क,
नई दिल्ली-110049
- 62 महानिदेशक,
फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट्स आर्गनाइजेशन,
पीएचड हाऊस, तृतीया तल,
आपोजिट एशियन गेम्स विलेज,
हौज खात, नई दिल्ली-110016
- 63 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ इण्डियन माइक्रो एंड
स्माल एंड मीडियम इण्टरप्राइजेज,
बी-4/161, सफरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

- 64 अध्यक्ष,
क्लर्ब असेम्बली आफ स्माल एंड मीडियम
एन्टरप्राइजेज (वासमे),
सेक्टर 16-ए, प्लॉट नं० 4, गौतम बुद्ध नगर,
नोएडा-201301
- 65 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ इण्डियन वीमेन,
5-ए, टाइगर लेन वेस्टर्न एवेन्यू,
सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062
- 66 सभापति,
कान्सोर्टियम आफ वीमेन इन्टरप्रियनर्स,
सी-90, आनन्द निकेतन,
नई दिल्ली
- 67 अध्यक्ष,
एसोसिएशन आफ लेडी इन्टरप्रिनर्स
आफ आन्ध्र प्रदेश,
मकान नं० 8-2-667/बी/1, रोड नं० 12,
थर्ड राईट, बंजारा कैंस्टल के पीछे,
हैदराबाद-500034 (आन्ध्र प्रदेश)
- 68 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ आन्ध्रा प्रदेश स्माल
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, सानथनगर
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
- 69 अध्यक्ष,
आल असम स्माल स्केल
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, बमुनी मैदान,
गुवाहाटी-781021 (असम)
- 70 अध्यक्ष,
बिहार चैम्बर आफ कामर्स (एसएसआई विंग)
खेम चन्द चौधर मार्ग,
पोस्ट बाक्स नं० 71,
पटना-800001 (बिहार)
- 71 अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ,
टिफरा इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
बिलासपुर-495223 (छत्तीसगढ़)
- 72 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ दिल्ली स्माल
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
ए-72, नारायणा इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
फेज-I, नई दिल्ली-110028
- 73 अध्यक्ष,
गुजरात स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज फेडरेशन,
चौथा तल, 407, आश्रम रोड, निर्माण हाऊस,
नजदीक टाइम्स आफ इंडिया,
पोस्ट बाक्स नं० 4215,
अहमदाबाद-380009 (गुजरात)
- 74 अध्यक्ष,
गोवा स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
मै० कैमको फूड प्रयोडक्ट, प्लॉट नं० 80/81,
कौरलिम इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
कौरलिम, इलहास,
गोवा-403110 (गोवा)
- 75 अध्यक्ष,
एसएसआई विंग,
हरियाणा चैम्बर आफ
कामर्स एंड इण्डस्ट्री,
इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
अम्बाला सिटी (हरियाणा)
- 76 अध्यक्ष,
एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
52-ए, फेज-1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, गंग्याल,
जम्मू-180010 (जम्मू एवं काश्मीर)
- 77 अध्यक्ष,
झारखण्ड स्माल एंड टाइनी
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
शहीद आश्रम रोड, बंधनाथ,
डियोगढ-814112.
- 78 अध्यक्ष,
केरल स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
वीके टावर्स, दूसरा तल, बीरनकुंज रोड,
कोच्चीन-682018.
- 79 अध्यक्ष,
कर्नाटक स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
2/106, 17 वां क्रॉस, मगाडी चोर्ड रोड,
विजय नगर,
बंगलूर-560040 (कर्नाटक)
- 80 अध्यक्ष,
मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ,
ई-2/30, महावीर नगर,
भोपाल-462016 (मध्य प्रदेश)
- 81 अध्यक्ष,
बाम्बे स्माल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
मधु कम्पाउन्ड, दूसरा तल,
सोनावाल क्रॉस रोड नं० 2,
गोरेगांव (ई),
मुम्बई-400063.

- 82 अध्यक्ष,
कानक डरेशन आफ इण्डस्ट्रीज आफ मेघालय,
शिलांग (मेघालय)
- 83 अध्यक्ष,
उड़ीसा-दिल्ली स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
अजय विनय भवन, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
फटक-753010 (उड़ीसा)
- 84 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ पंजाब स्माल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
पंजाब ट्रेड सेंटर काम्पलेक्स,
इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मिस्तर गंज,
लुधियाना-141003 (पंजाब)
- 85 अध्यक्ष,
एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आफ द
संघशासित प्रदेश पाण्डिचेरी,
इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
पाण्डिचेरी-605009 (पाण्डिचेरी)
- 86 अध्यक्ष,
जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
उद्योग भवन काम्पलेक्स,
इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
जोधपुर-342003 (राजस्थान)
- 87 अध्यक्ष,
द एस एस आई एसोसिएशन,
पुरसारथा भवन, रोड नं० 5,
इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
कोटा-324005 (राजस्थान)
- 88 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ कौटेज
एंड स्माल इण्डस्ट्रीज,
11, जगन्नाथ बारी रोड, पहला तल,
अगरतला (त्रिपुरा)
- 89 अध्यक्ष,
तमिलनाडू स्माल एंड टाइनी
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
10, जी० एस० टी० रोड, गुण्डी,
चेन्नई-600032 (तमिलनाडू)
- 90 अध्यक्ष,
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
इला भवन, विभूति खण्ड, फेज-II,
नियर अपना बाजार, गोमती नगर,
लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)
- 91 अध्यक्ष,
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
मोहावेवाला इण्डस्ट्रीयल एरिया,
देहरादून-(उत्तरांचल)
- 92 अध्यक्ष,
आल इण्डिया लाक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन,
सी-7, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
अलीगढ़-202001 (उत्तर प्रदेश)
- 93 अध्यक्ष,
टायज एसोसिएशन,
29/4/796, डिप्टोगंज,
सदर बाजार,
नई दिल्ली-110011
- 94 अध्यक्ष,
आल इण्डिया फेडरेशन आफ प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज,
नं० 17, पहला तल,
40, डीएलएफ इण्डस्ट्रीयल एरिया,
कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015
- 95 अध्यक्ष,
एसोसिएशन आफ स्माल एंड मीडियम
इलेक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्री,
14, कम्युनिटी सेंटर,
सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया,
नई दिल्ली-110016
- 96 अध्यक्ष,
त्रिपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, 92, अपाची नगर,
मैन रोड, कानगू नगर, पोस्ट बाक्स नं० 508,
त्रिपुर-641607 (तमिलनाडू)
- 97 अध्यक्ष,
यून.ईटिड साईकल्स एंड पार्ट्स, मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन,
गिल रोड, लुधियाना-141003 (पंजाब)
- 98 अध्यक्ष,
आल इण्डिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्यूफैक्चरर्स फेडरेशन,
सी/ओ० प्रेमनागर एंड संस, सूरज कुंड रोड,
मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 99 अध्यक्ष,
हैंड टूल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन,
ए-3, फोकल पाइन्ट, जी०टी० रोड बाइपास,
पो० ओ० बाक्स नं० 461, जालन्धर सिटी-144008
(पंजाब)
- सदस्य-सचिव
- 100 अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग),
निर्माण भवन, नई दिल्ली
- बोर्ड के कार्य
- बोर्ड का कार्य लघु उद्योगों के विकास से संबंधित नीति
मामलों में सरकार को सलाह प्रदान करना है।

बोर्ड को विशेष उद्देश्यों के लिए गतिविधियों (यों) कार्य समूहों इत्यादि गठित करने की शक्तियां होंगी। बोर्ड को अपनी बैठक में आवश्यकतानुसार व्यक्तियों को आमन्त्रित करने का अधिकार होगा।

लघु उद्योग बोर्ड की अधि भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने का तारीख से दो वर्ष के लिए होगी।

गैर-सरकारी व्यक्तियों को इस विषय में नियमानुसार यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते देय होंगे।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश है कि सामान्य सूचना हेतु संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पंकज जैन

निदेशक (लघु उद्योग बोर्ड व नीति)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

संकल्प

सं० ई-11017/2/2001-हिन्दी---“डा० मेघनाद साहा पुरस्कार योजना” के अधीन विज्ञान के विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार करने के लिए जारी किये गये इस विभाग के दिनांक 6 नवम्बर, 2002 के संकल्प सं० ई-11017/1/2000-हिन्दी का आंशिक संशोधन किया जाता है :---

क्रम सं०	अनुच्छेद	के स्थान पर	पढ़ा जाए
3	प्रथम पुरस्कार	40,000/- रुपये	1,00,000/- रुपये
	द्वितीय पुरस्कार	30,000/- रुपये	50,000/- रुपये
	तृतीय पुरस्कार	20,000/- रुपये	25,000/- रुपये
	2 सांत्वना पुरस्कार	---	10,000/- रुपये प्रत्येक

उपर्युक्त पुरस्कार की राशि में की गई यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2002-2003 से प्रभावी होगी। पुरस्कार की राशि में उक्त वृद्धि सचिव डी० एन० टी० के अनुमोदन से उनकी डायरी सं० 359 दिनांक 16-1-2002 के तहत जारी की जाती है।

अनुच्छेद 10 (8)

प्रस्तुत लेखक तीन वर्षों के उपरान्त इस योजना में पुनः भाग ले सकते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत में सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को तार्वारिक रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अमिताभ पाण्डे, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

संकल्प

सं० एम-19014/1/95—डी/डी०एम०एस०/पी०एफ०
ए०—दिनांक 12-3-1991 के संकल्प सं० एम० 19020/1/
89—डी०एम०एस० एण्ड पी०एफ०ए० द्वारा गठित की गई भारतीय भेषज संहिता समिति के कार्यकाल, जिसे 11-9-2002 तक बढ़ाया गया था, को और आगे 6 महीने की अवधि के लिए अर्थात् 11-3-2003 तक बढ़ाया जाता है।

समिति के अन्य निबन्धन और शर्तें वहीं रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय, नई दिल्ली और भारतीय भेषज संहिता समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वन्दु प्रकाश, अवर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &
PROMOTION)**

New Delhi, the 27th December 2002

RESOLUTION

No. 07011/1/2002-Salt.—The Government of India have decided to reconstitute the Central Advisory Board for Salt with immediate effect. The composition of the reconstituted Central Advisory Board (hereinafter called "the Board") will be as follows :—

Chairman

1. Commerce & Industry Minister.

Members

Representatives of Central Government Departments/Organizations

2. Joint Secretary,
In-charge of Salt, Department of Industrial Policy & Promotion.
3. Joint Secretary,
In-charge of National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi.
4. Central Labour Commissioner, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhavan, New Delhi.
5. Executive Director (Traffic & Transport), Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
6. Director,
Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar, Gujarat.

Representatives of State Governments of Salt Producing States :

7. Industries Commissioner, Govt. of Gujarat, Gandhi Nagar, Gujarat.
8. Secretary, Department of Industries, Govt. of Andhra Pradesh Hyderabad.
9. Secretary, Department of Industries, Govt. of Tamil Nadu, Chennai.
10. Secretary, Department of Industries, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
11. Secretary, Department of Industries, Govt. of Orissa, Bhubaneswar.
12. Secretary, Department of Food & Civil Supplies, Industries, Govt. of West Bengal, Kolkatta.

Representatives of State Government Departments from other than Salt Producing States.

13. Secretary,
Department of Food & Civil Supplies, Govt. of Assam, Dispur.
14. Secretary, Department of Food & Civil Supplies, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
15. Secretary, Department of Food & Civil Supplies, Govt. of Karnataka, Bangalore.

Representatives of Salt Manufacturers :

GUJARAT

16. President, Indian Salt Manufacturers Association, (ISMA), Mumbai.
17. President, Kharaghoda Iodised Salt Manufacturer Association, Kharaghoda.
18. President, Gandhidham Chamber of Commerce & Industry, Gandhidham.
19. President, Gujarat Salt Federation, Bhavnagar.
20. President, Kutch Saurashtra Salt Manufacturers Association, Jamnagar.
21. President, Kutch Small Scale Salt Manufacturer's Association, Gandhidham (Kachchh)-370201.

22. Shri D. S. Jhala, Chairman, Dev Salt Pvt. Ltd., Jamnagar.

TAMIL NADU

23. Shri Michael Motha, 13A/1, Meenakshipuram West, Pillayar Koil Street, Tuticorin-628002.
24. Shri A. Ravi, Vedaranyam (Gurukulam).
25. Shri K. Mariappan 2, Cathedral Road, Chennai-600086.

ANDHRA PRADESH

26. Shri Mallasambasiva Rao, Gandhi Market, Anapalli-531001, Visakhaatnam Distt., Andhra Pradesh.
27. Shri Viswanadha Babu, Chidambareswaraswamy Temple, Chinnaganjam-523135, Prakasam Distt. Andhra Pradesh.

ORISSA

28. Orissa Salt Manufacturers Association, Ajay Binay Bhavan, Indl. Estate, Cuttack-753010

WEST BENGAL

29. Contai Salt Manufacturers Association MIG 2R 2/16, Phase-IV, Golf Green, Kolkatta-95.

RAJASTHAN

30. Shri S. P. Bohra, President, Salt Manufacturers Association, Phalodi.

MAHARASHTRA

31. Shri Vivek Mhatre, Mithagar Kangar Sahkari Sanstha Ltd., Vassai, Thane.

Representatives of Indized Salt/Refined Iodized Salt Manufacturers

32. Shri Krishnamurailal G. Agarwal, Prem Namak Udvog, Bharat Deep, Club Road, Dhrangadhra-363310, Distt. Surendranagar, Gujarat.
33. Shri Babulal Sanghvi, Gandhidham-370201, Friends Salt Works & Allied Inds.

Persons having knowledge and experience of Salt Manufacturing Co-operative Societies

34. The Humma & Binchamapalli Salt Production & Sale Co-operative Society Ltd., P.O. & Distt. Ganjam, Orissa-761026.

Representative of Chlor Alkali Industry :

35. President, Alkali Manufacturers' Association of India, Pankaj Chambers, 3rd Floor, Preet Vihar Commercial Complex, Vikas Marg, New Delhi-110092

Iodized Salt Manufacturers/Nominees from the North Eastern Region

36. Shri Rajan Lohia, M/s. Jhabarmal Binod Kumar, Cole Road, Dibrugarh, Assam.

Persons having knowledge & experience in Public Affairs

37. Smt. Savita Sharda, MP, (Rajya Sabha).
38. Prof. Alka Balram Kshatriya, MP, (Rajya Sabha).
39. Shri P. S. Gadhavi, MP, (Lok Sabha)
40. Shri Bhim Dahal, MP, (Lok Sabha).
41. Shri Dinesh Patel, MP, (Lok Sabha).

Persons Representing Salt Labourer's interest

42. Ms. B. Geeta Jeewan, 53/249, C-I Geetha Nagar, Muthaiapuram P.O., Thuthukudi, Tamil Nadu.
43. Shri S. K. Vedarathinam, Thethakudi South Post, Thethakudi, Vedaranyam, Tamil Nadu.
44. Shri Ram Chandra Panda, Qrs. No. VIIR D/S-2/1, Unit-II, Bhubaneswar.

Member Secretary

45. Salt Commissioner, Jaipur.

Note : Representatives of the Ministries of Shipping and Transport and Deptt. of Commerce and State Trading Corporation may be invited to attend the meeting of the Board whenever necessary.

All members of Parliament who are the members of the Regional Advisory Boards for Salt may attend the meetings of the Board.

2. The functions of the Central Advisory Board will be to advise the Govt. of India on the administration of proceeds of the Salt Cess levied under Section 3 of the Salt Cess Act, 1953 and to make recommendations generally for measures conducive to the development of the salt industry, e.g.

- (i) Establishment and maintenance of research stations, model farms and salt factories;
- (ii) fixing the grades of salt and improving its quality;
- (iii) development of exports;
- (iv) promoting and encouraging co-operative efforts among the manufacturers of salt;
- (v) any other matter pertaining to the development of salt industry;
- (vi) promoting the welfare of labour employed in the salt industry.

3. (a) The Board will have a term of 3 (three) years w.e.f. the date of issue of this Resolution.

(b) If the seat of a non-official member falls vacant, the Central Government shall make fresh nomination to fill up the vacancy for the unexpired portion of the term of the Board.

4. (a) If a nominated member is not in position to attend the meeting, he will intimate the fact in writing to the Chairman of the Board.

(b) The quorum for a meeting of the Board shall be three.

(c) Every non-official member attending the meeting of the Board or of a sub-committee duly constituted by the Board shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as admissible under the rules or as approved by Central Government from time to time.

(d) The Salt Commissioner, Jaipur will be the controlling officer for the purpose of counter-signing of the travelling and daily allowance bills of the non-official members.

(e) A non-official member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Board.

(f) If a non-official member leaves India, he shall intimate to the Chairman of the Board, before leaving India, the date of his departure from and the date of his expected return to India, and, if he intends to be absent from India for a period longer than six months, he shall tender his resignation. If any such member leaves India without complying with the above, he shall be deemed to have resigned with effect from the date of his departure from India.

(g) A member shall be declared by the Chairman of the Board to have vacated his office :—

- (i) if he becomes insolvent, or
- (ii) if he is convicted of any offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or
- (iii) if he is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from its Chairman or
- (iv) if, in the opinion of the Central Government it is undesirable that he should continue to be a member of the Board.

(h) The Member Secretary of the Board, with the approval of the Chairman of the Board, may invite one or more

non-official members of the Regional Advisory Boards for Salt or other persons to attend any meeting of the Board, and such members or persons shall be entitled to travelling allowance etc. as indicated under clause (c).

(i) The Board shall meet at such place and time as may be appointed by the Chairman.

(j) A notice shall be given to every member present in India of the time and place fixed for each ordinary meeting at least 15 days before such meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed of at that meeting.

(k) Provided that when an emergent meeting is called by the Chairman, such notice shall not be necessary.

(l) No business which is not on the list, shall be considered by a meeting without the prior permission of the Chairman of the Board.

(m) The Chairman shall preside over the meeting of the Board at which he is present. If the Chairman is absent from any meeting, the members shall elect a member as Chairman and the member so elected shall, at that meeting exercise all the powers of the Chairman.

(n) Every question at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting on that question. In the case of an equal division of votes, the Chairman shall give an additional vote.

(o) The proceedings of each meeting of the Board shall be circulated to all members present in India and thereafter recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

The record of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairman of the Board.

(p) Proposals for expenditure in a Region to be met from the proceeds of the Cess shall be considered first by the Regional Board within the financial limits prescribed by the Government under Code of Principles. In case cost of the project exceeds financial limits, the proposals together with the Regional Board's recommendations shall be considered by the Central Advisory Board.

(q) The recommendations of the Central Advisory Board shall be submitted to the Central Government for acceptance after which detailed estimates shall be prepared. The estimates shall be sanctioned by competent authority.

(r) No act or proceeding of the Board shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Board.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and the Prime Minister's Office.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part-I, Section-I.

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi-110011, the 31st December 2002

RESOLUTION

No. 1(1)/2002-SSI Board & Policy—Government of India are pleased to constitute the Small Scale Industries Board as Follows :

CHAIRPERSON

Minister of State (Small Scale Industries)
Govt. of India, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

CENTRAL GOVERNMENT DEPARTMENTS

Secretary,
Ministry of Small Scale Industries
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

Secretary,
Ministry of Agro & Rural Industries
Udyog Bhavan,
New Delhi.

Secretary,
Department of Revenue,
Ministry of Finance,
North Block,
New Delhi-110001.

Secretary,
Department of Commerce,
Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

Secretary,
Department of Industrial Policy & Promotion,
Ministry of Commerce & Industry,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

Secretary,
Ministry of Labour
Shram Shakti Bhavan,
New Delhi-110001.

Secretary
Department of Biotechnology
Ministry of Science & Technology
Block-2, CGO Complex
New Delhi-110003.

Secretary
Department of Information Technology
Ministry of Communication & Information
Technology, Electronics Niketan
CGO Complex, New Delhi-110003.

Secretary
Ministry of Textiles
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Secretary
Planning Commission
Yojana Bhavan
Sansad Marg
New Delhi-110001.

Secretary
Banking Division
Ministry of Finance
Jeevan Deep Building, Parliament Street
New Delhi-110001.

FINANCIAL INSTITUTIONS
Dy. Governor, (Incharge Small Scale Sector)
Reserve Bank of India
Central Office, Central Office Building
18th Floor
Shahid Bhagat Singh Road, Fort
Mumbai-400001.

Chairman & Managing Director
Small Industries Development Bank of India
(SIDBI)
10/10, Madan Mohan Malviya Marg
Lucknow-208001 (UP).

Chairman
State Bank of India (SBI)
Central Office, New Administrative Building
Madan Cama Road
Mumbai-400021.

Chairman & Managing Director
North East Development Finance Institution
(NEDFI) 6th Floor, IDBI Building
G. S. Road, Guwahati.

GOVERNMENT UNDERTAKINGS

Chairman and Managing Director
National Small Industries Corporation (NSIC)
NSIC Bhavan, Okhla Ind. Estate
New Delhi-110020.

STATE/UT GOVERNMENT
LT GOVERNORS/ADMINISTRATORS/
MINISTERS

Minister I/c. for Small Scale Industries
Govt. of Andhra Pradesh
A. P. Secretariat
Hyderabad-500022.

Lt. Governor
Andaman & Nicobar Administration
Andaman & Nicobar Islands
Andaman Secretariat
Port Blair-744101(A & N Islands).

Minister

I/c. Industries & Commerce Deptt.
Govt. of Assam, Janta Bhavan
Dispur, Guwahati-781000 (Assam).

Minister of Industries
Govt. of Arunachal Pradesh
Itanagar-791111 (Arunachal Pradesh).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Bihar
Vikas Bhavan
New Secretariat
Patna-800015 (Bihar).

Administrator
Chandigarh Administration
Punjab Raj Bhavan
Chandigarh-160017.

Administrator
Dadra & Nagar Haveli Administration
Secretariat D & NH
Silvassa-396230.

Administrator
Daman & Diu Administration
Secretariat
Daman-396220.

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, I. P. Estate
New Delhi.

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Goa, Secretariat
Panaji-403001 (Goa).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Gujarat
Sachinrai, Block No. 1, 6th Floor
Gandhinagar-382010 (Gujarat).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Haryana
Room No. 45, 4th Floor
Haryana Civil Secretariat
Chandigarh-160011 (Haryana).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Himachal Pradesh
Himachal Pradesh Secretariat
Shimla-171002 (Himachal Pradesh).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Jammu & Kashmir
Civil Secretariat, Oct.
Srinagar-190001 (J&K)
Civil Secretariat, Jammu.

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Karnataka
Room No. 37, 11 Floor, Vidhan Soudha
Bangalore-560001 (Karnataka).

Minister for Industries and Social Welfare
Govt. of Kerala
Government Secretariat
Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).

Administrator
Lassadweep Administration
U. I. Lassadweep
Govt. House
(P. O.) Kavaratti-682555.

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Madhya Pradesh
Ministry of Industries, Secretariat
Room No. 343, 3rd floor, Vaidya Bhavan
Bhopal-462004 (Madhya Pradesh).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Maharashtra
Room No. 106, 1st floor, Mantralaya
Mumbai-400032 (Maharashtra).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Manipur
Ministers' Block (North)
Imphal-795001 (Manipur).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Mizoram
Civil Secretariat
Aizawl-796001 (Mizoram).

Minister I/c. of Small Scale Industries
Govt. of Meghalaya
Meghalaya Secretariat
Myntdu Building
Shillong-793001 (Meghalaya).

Minister I/c. of Industries & Commerce,
Govt. of Nagaland
P. O. Nagaland Kohima-797001 (Nagaland).

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Govt. of Orissa
State Secretariat,
Bhubaneswar-751001 (Orissa).

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Govt. of Punjab,
Punjab Civil Secretariat,
Chandigarh-160001, (Punjab).

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Legislative Assembly,
Secretariat,
Pondicherry-605001.

Minister for Small Scale Industries
Govt. of Jharkhand,
Nepal House, Doranda,
Ranchi (Jharkhand)-834002.

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Government of Rajasthan,
Secretariat,
Jaipur-302005 (Rajasthan)

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Govt. of Sikkim,
Tashiling Secretariat, Gangtok,
Sikkim-737 101.

Minister for Small Scale Industries
Fort St. George
Chennai-600 009 (Tamil Nadu).

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Govt. of Tripura,
Civil Secretariat, West Tripura,
Agartala-799 001 (Tripura).

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Govt. of Uttar Pradesh,
Minister of SSI Secretariat,
Lucknow-208001, (U.P.).

Minister for Small Scale Industries
Govt. of Uttaranchal,
Vidhan Bhavan
Dehradun-248001.

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Govt. of Chhattisgarh
D. K. Bhavan,
Mantralaya,
Raipur-492001.

Minister I/c. of Small Scale Industries,
Govt. of West Bengal,
Writer's Building, 2nd floor, Room No. 23
Kolkata-700 001 (W.B.).

STANDING COMMITTEE CHAIRMAN

Member Parliament and Chairman,
Parliament Standing Committee of Industry,
19, Gurudwara Rakab Ganj Road,
New Delhi-110 001.

PROMINENT ASSOCIATIONS

President,
Federation of Association of Small Industries
of India (FASII),
23/B 2, Guru Govind Singh Marg,
New Rohtak Road, Near Liberty Cinema,
New Delhi-110005.

President,
Laghu Udyog Bharti,
1E/11, Swami Ram Tirth Nagar,
Jhandewalan Extn.,
New Delhi-110055.

President,
Indian Council of Small Industries (ICSI),
1A, S. N. Banerjee Road,
Calcutta-700013 (W.B.).

President,
Federation of Small & Medium Industries,
23, R. N. Mukherjee Road,
Kolkata-700001 (W.B.).

President,
All India Association of Industries, (AIAI),
106, Uttam House, 69, P. D'mello Road,
Carnac Bunder,
Mumbai-400009 (Maharashtra).

Chairman,
Small Industry Council,
Confederation of Indian Industry (CII),
23, Institutional Area, Lodhi Road
New Delhi-110003.

Chairman,
Small Industry Committee, (FICCI),
C/o Sheila Sudhakaran, Dy. Secretary
Federation of Indian Chambers of
Commerce & Industry (FICCI),
Tansen Marg,
New Delhi-110001.

Chairman,
Expert Committee on SMEs,
Associated Chambers of Commerce and
Industry of India (ASSOCHAM),
147-B, Gautam Nagar,
Gulmohar Enclave,
New Delhi-110049.

Director General,
Federation of Indian Exports Organisation
(FIEO)
PHD House, 3rd Floor,
Opposite Asian Games Village,
Hauz Khas,
New Delhi-110016.

President,
Federation of Indian Micro and Small &
Medium Enterprises (FISME),
B-4/161, Safdarjung Enclave
New Delhi-110029.

President,
World Association for Small &
Medium Enterprises (WASME)
Sector 10A, Plot No. 4,
Gachhi Bagan Nagar,
New Delhi-110031.

President,
Federation of Indian Women (FIWE),
3A, Tiger Lane Western Avenue,
Shankar Estate,
New Delhi-110062.

Chairperson
Council of Women Entrepreneurs (CWEI)
C-70, Anand Vihar
New Delhi.

President
Association of Lady Entrepreneurs
of Andhra Pradesh (ALEAP)
Pl. No. 6-2-011/D/1, Road No. 12, 3rd Right
Beside Banjara Club, Banjara Hills
Hyderabad-500024.

President
Federation of Andhra Pradesh Small
Industries Association
Industrial Estate, Sanathnagar
Hyderabad.

President
All Assam Small Scale Industries
Association, (AASSIA)
Industrial Estate
Bamani Maidan
Guwahati (Assam)-781021.

President
Bihar Chamber of Commerce (SSI Wing)
Kirti Chaudh Choudhary Marg
Post Box No. 71
Patna-800001 (Bihar).

President
Chhattisgarh Laghu & Sahayak Udyog Sangh
Tara Industrial Estate
Bilaspur-495225 (Chhattisgarh).

President
Federation of Delhi Small Industries
Association
A-72, Naraina Industrial Area
Phase-I, New Delhi-110028.

President
Gujarat State Small Industries Federation
4th Floor, 401, Ashram Road, Nirman House
Near Times of India, P. B. No. 4215
Ahmedabad-380009 (Gujarat).

President
Goa Small Scale Industries Association
M/s. Kamko Food Product, Plot No. 80/81
Corim Industrial Estate, Corim Ilhas
Goa-403110.

President
SSI Wing
Haryana Chamber of Commerce & Industry
Industrial Estate, Ambala City (Haryana).

President
Association of Small Scale Industries
52-A, Phase-I, Industrial Area
Gangyal, Jammu (J & K State)-180010.

President
Jharkhand Small & Tiny Industries
Association
Shaheed Ashram Road, Baidyanath
Deoghar-814112, Dist. Deoghar (Jharkhand).

President
Kerala State Small Industries Association
Veekay Towers, 2nd floor, Beerankunju Road
Cochin-682018.

President
Karnataka Small Scale Industries Association
(KASSIA)
2/106, 1/1th Cross, Magadi Chord Road
Vijayanagar
Bangalore-560040 (Karnataka).

President
Madhya Pradesh Laghu Udyog Sangh
E-2/30 Mahaveer Nagar
Bhopal-462016 (Madhya Pradesh).

President
Bombay Small Industries Association
Madhu Compound, 2nd Floor
Sonawall Cross Road No. 2
Goregaon (E)
Mumbai-400063.

President
Confederation of Industries of Meghalaya
Shillong (Meghalaya).

President
Orissa Small Scale Industries Association
Ajay Binay Bhawan
Industrial Estate
Cuttack-753010 (Orissa).

President
Federation of Punjab Small Industries
Association
Punjab Trade Centre Complex
Industrial Estate
Miller Ganj
Ludhiana-141 003.

President
Association of Small Scale Industries of the
Union Territory of Pondicherry
Industrial Estate
Thattanchavady
Pondicherry-605009.

President
Jodhpur Industries Association (J.I.A.)
Udyog Bhavan Complex
Industrial Estate
Jodhpur-342 003 (Rajasthan).

President
The SSI Association
Purshartha Bhavan
Road No. 5
Indraprasth Indl. Area
Kota-324005 (Rajasthan).

President
Federation of Associations of Cottage &
Small Industries (FACSI)
11, Jagannath Bari Road
1st Floor
Agartala (Tripura).

President
Tamil Nadu Small & Tiny Industries
Association
(TANSTIA) 10, G.S.T.. Road
Guindy
Cheennai-600 032 (Tamil Nadu).

President
Indian Industries Association
IIA Bhavan, Vibhuti Khand
Phase-II
Near Apna Bazar
Gomti Nagar
Lucknow-226 010 (U. P.).

President
Indian Industries Association
Mohabewala Industrial Area
Dehradun (Uttaranchal).

President
All India Lock Manufacturers Association
C-7, Industrial Estate
Aligarh (UP)-202 001.

President
Toys Association of India
29/4/796, Deputy Ganj
Sadar Bazar
New Delhi-110 001.

President
All India Federation of Plastic Industries
No. 17, 1st Floor
40, DLF Industrial Area
Kirtinagar
New Delhi-110 015.

President
Association of Small & Medium Electronics
Industry
14, Community Centre
Safdarjung Development Area
New Delhi-110016.

President
Tirupur Exporters Association
62, Appachi Nagar
Main Road
Kongu Nagar, (Post Box No. 508)
Tirupur-641607 (Tamil Nadu).

President
United Cycles & Parts Mfrs. Association
Gill Road
Ludhiana-141 003.

President
All India Sports Goods Manufacturers
Federation
C/o Prem Sagar & Sons
Suraj Kund Road
Meerut.

President
Hand Tools Manufacturers Association
A-3, Focal Point
G. T. Road Bye Pass
P. O. Box No. 461
Jalandhar City-144008 (Pb.).

Member-Secretary
Additional Secretary &
Development Commissioner (SSI)
Nirman Bhavan
New Delhi.

FUNCTIONS OF THE BOARD

The functions of the Board will be to advise the Government on all policy matters relating to the development of small scale industries.

The Board will have powers to appoint Committees, Standing Committees, Working Groups etc. for specific purpose. It shall also have powers to invite persons to the meeting of the Board as and when necessary.

The terms of the Small Scale Industries Board shall be for a period of TWO YEARS from the date of publication in the Gazette of India.

The Non-official Members will be eligible for TA/DA as per rules on the subject.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

PANKAJ JAIN
Director (SSI Board & Policy)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 19th December 2002

RESOLUTION

No. E-11017/2/2001-Hindi.—In partial modification of this Department's Resolution No. E-11017/1/2001-Hindi dated the 6th November, 2000 regarding "Dr. Meghnad Saha Award Scheme" for writing original Scientific books in Hindi, following changes have been made therein :—

Sl. No., Para No., For & Read

1. 3

First Prize Rs. 40,000/- Rs. 1,00,000/-

Second Prize Rs. 30,000/- Rs. 50,000/-

Third Prize Rs. 20,000/- Rs. 25,000/-

Consolation Prize (2) — Rs. 10,000/- each.

The above increase in the value of the awards will be effective from the financial year 2002-2003. This issues with the approval of the Secretary, DST vide his diary No. 359, Dated 16-1-2002.

2. 10(8) — Writers once awarded under this Scheme shall be eligible to participate again after 3 years.

Ordered that a copy each of this resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Govt. of India, all the States Govts., all the Universities of India and news agencies.

Ordered also that this resolution should be published in the Gazette of India for general information.

AMITABHA PANDE, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th October 2002

RESOLUTION

No. X.19014/1/95-D/DMS&PFA.—The term of the Indian Pharmacopoeia Committee constituted vide Resolution No. X. 19020/1/89-DMS&PFA dated 12-3-1991, which was extended upto 11-9-2002 is further extended for a period of six months i.e. upto 11-3-2003.

The other terms and conditions of the Committee will remain the same.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be sent to all the Ministries/Departments of the Govt. of India, Directorate General Health Services, New Delhi and all the Members of the Indian Pharmacopoeia Committee (List enclosed).

Ordered that a copy of the resolution be sent to the Manager, Government of India Press, Faridabad for publication in the Gazette of India for general information.

Copy to all Sections, in the Ministry of Health and Family Welfare. Copy for sanction register.

CHANDER PRAKASH, Under Secy.

प्रकाशक, भारत सरकार मन्त्रालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित
एवं प्रकाशन निम्नलिखित, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003